



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
इंदिरा गांधी कृषि विश्व विद्यालय
रायपुर



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 02-03-2021

नारायणपुर(छत्तीसगढ़) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2021-03-02 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2021-03-03	2021-03-04	2021-03-05	2021-03-06	2021-03-07
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	35.0	35.0	36.0	36.0	36.0
न्यूनतम तापमान(से.)	18.0	18.0	18.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	70	80	75	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	25	20	25	25	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	2.0	2.0	3.0	2.0	3.0
पवन दिशा (डिग्री)	63	90	202	210	202
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

भारत मौसम विभाग (IMD) से प्राप्त पूर्वानुमान के अनुसार, अगले पांच दिनों के दौरान नारायणपुर जिले में मौसम शुष्क एवं आसमान साफ़ रहने की सम्भावना है। अधिकतम तापमान 32.0 °C के आस-पास एवं न्यूनतम 15.0 से 17.0 °C के मध्य रहेगा। इस दौरान हवा में सुबह लगभग 75 से 85 % और शाम के समय 25 % नमी रहने की संभावना है। मुख्यतः दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम दिशा से लगभग 2 से 3 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चल सकती हैं।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में दिन का तापमान बढ़ने की सम्भावना अतः किसान भाई सब्जी वाली फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।

लघु संदेश सलाहकार:

भिन्डी की फसल के लिए समय उपयुक्त है किसान भाई खेत तैयार कर कतार से कतार 75 एवं पौध से पौध 30 से.मी. के अंतराल उपचारित बीजों की बुआई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	यदि आम का फल मटर के आकार का हो गया है, तो किसानों को सलाह दी जाती है कि वे पेड़ के तने के चारों ओर थाला बनाएं और फलों को गिरने से रोकने के लिए अच्छी तरह से सिंचाई करें।

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आलू	जब आलू के पौधे की पत्तियां पीली हो जाएँ, तो कंदों की खुदाई कर लें और कंद के छिलके को कड़ा होने के लिए 1.2 से 2 फीट की ऊंचाई पर शेड में रखें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	पशुओं के शेड को साफ रखें और हवा के आवागमन के लिए उचित प्रबंध रखें।

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह:

अन्य (मृदा / भूमि तैयारी)	अन्य (मृदा / भूमि तैयारी) विशिष्ट सलाह
पौध - संरक्षण	कद्दू वर्गीय कीड़ों में लाल कीड़ा का प्रकोप दिखने पर सेविन नमक कीटनाशक का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर पौधों की जड़ों के पास सुबह के समय छिड़काव करें.
सामान्य सलाह	कद्दू वर्गीय सब्जियों जैसे कुम्हड़ा, लौकी, करेला इत्यादि के अलावा बरबट्टी, भिन्डी एवं अन्य ग्रीष्मकालीन सब्जियों के अच्छे अंकुरण के लिए तापमान अनुकूल है अतः इन फसलों की बुआई के लिए अच्छी तरह भुरभुरी खेत तैयार कर बुआई करें.
सामान्य सलाह	बढ़ते हुए तापमान के कारण वाष्पीकरण की दर भी बढ़ने लगी है अतः सब्जियों के खेत में कतार के बीच में पैरा से पलवार (मल्टिचिंग) गायें ताकि मृदा से नमी बनी रहे.